

だい 第 7 か 課
部屋が4つあります

あなたは今、どんな家に住んでいますか?
आप इस समय किस प्रकार के घर में रह रहे हैं?



1. 这里是台所です

cando+
26

家の中を案内してもらいながら、簡単な説明を聞いて、間取りを理解することができる。
किसी घर को दिखाए जाते समय बताई गई सामान्य जानकारी को सुनकर लेआउट को समझ सकते हैं।

1 ことばの準備

शब्दों के लिए तैयारी

【日本の家 日本屋】




a. 玄関



b. お風呂






c. トイレ



k. 2階
j. 1階



i. 居間/リビング




d. 階段



h. 庭



g. 台所/キッチン



f. ベランダ/バルコニー



e. 部屋

第7課 部屋が4つあります

(1) 絵を見ながら聞きましょう。🔊 07-01

चित्रों की ओर देखते हुए सुनें।

(2) 聞いて言いましょう。🔊 07-01

सुनें और शब्दों को दोहराएँ।

(3) 聞いて、a-k から選りましょう。🔊 07-02

सुनें और a-k में से चुनें।

2 会話を聞きましょう。

संवाद को सुनें।

▶ ソンさんとタインさんは、これから住む会社の寮を
中川さんに案内してもらっています。

नाकागावा-सान सोन-सान और थान्द-सान को कंपनी का छात्रावास दिखा रही/ रहे हैं जहाँ वे रहने वाले हैं।



中川 ソン タイン

(1) 2人は、どんな順番で案内してもらいましたか。()に順番を書きましょう。🔊 07-03

उन्हें छात्रावास के अंदर कमरे किस क्रम में दिखाए जाते हैं? खाली जगहों में क्रम लिखें।

かんりにんしつ
管理人室

しょくどう
食堂


(2)

()

()

()

(1)



()

()

()

(2) ことばを確認して、もういちど聞きましょう。🔊 07-03

शब्दों को देखें और संवाद को फिर से सुनें।

くつ じゆて | ご飯 はん ぼजन

はい 入ってください 入る 入る 入る (はい 入る 入る 入る)

ぬ 脱いでください 脱ぐ 脱ぐ 脱ぐ (ぬ 脱ぐ 脱ぐ 脱ぐ)

お世話になります मैं तो आपके भरोसे हूँ। (विनम्र शब्द जिनका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते समय किया जाता है जो आपकी देखभाल करेगा)

かたち ちゆうもく
形に注目

(1) 音声を聞いて、_____にことばを書きましょう。🔊 07-04

रिकॉर्डिंग सुनें और खाली जगहों को भरें।

_____ げんかん
は玄関です。_____ かんりにんしつ
は管理人室です。

_____ はトイレです。

いつかい 1階 _____ へや 部屋 _____ よつ 4つ _____ 。

_____ かいだん
ここ _____ 階段 _____ 。_____ かい 2階 _____ へや
_____ タインさんの部屋 _____ 。

! へや あんない 部屋を案内するとき、どう言っていましたか。→ 文法ノート①

उन्हें कमरे दिखाते समय किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?

! たてもの せつび 建物 設備を言うとき、どう言っていましたか。→ 文法ノート②

उनके साथ सुविधाओं के बारे में बात करते समय किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया?

(2) 形に注目して、会話をもういちど聞きましょう。🔊 07-03

उपयोग की गई अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और संवाद को फिर से सुनें।



2. 電子レンジはありますか？

Can-do
27

いえ へ や ひつよう 家や部屋に必要なものがそろっているか質問して、確認することができる。

शुभं शिम्मं ककुंन घर या कम्पे में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं या नहीं इसके बारे में पूछ सकते हैं और जाँच कर सकते हैं।

1 ことばの準備

शब्दों के लिए तैयारी

かでん かぐ
【家電・家具】 घरेलू उपकरण और फर्नीचर

a. エアコン



b. 冷蔵庫




c. 電子レンジ



d. 炊飯器




e. トースター



f. ベッド



g. ふとん



h. テーブル



i. いす



j. 洗濯機



k. テレビ



l. Wi-Fi



(1) 絵を見ながら聞きましょう。🔊 07-05

चित्रों की ओर देखते हुए सुनें।

(2) 聞いて言いましょう。🔊 07-05

सुनें और शब्दों को दोहराएँ।

(3) 聞いて、a-l から選びましょう。🔊 07-06

सुनें और a-l में से चुनें।

2 2 かいわ 会話を聞きましょう。

संवादों को सुनें।

- ▶ ^{す りょう せつび びひん}これから住む寮の設備や備品について、^{なかがわ しつもん}ソンさん、タインさんが中川さんに質問しています。
सोन-सान और ताइन-सान छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं और उपकरण के बारे में नाकागावा-सान से सवाल पूछ रहे हैं।

(1) 1 だいどころ 台所/部屋にあるものには○、ないものには×を書きましょう。

रसोईघर/कमरे में मौजूद चीजों के बगल में ○ लिखें और जो चीज वहाँ नहीं हैं उनके बगल में × लिखें।

① 07-07	② 07-08
<p>だいどころ 台所で रसोईघर में</p> 	<p>へや 部屋で कमरे में</p> 
<p>1. 1 れいぞうこ 冷蔵庫 () 2. 2 でんし 電子レンジ () 3. 3 トースター () 4. 4 すいはんき 炊飯器 ()</p>	<p>1. 1 ベッド () 2. 2 ふとん () 3. 3 テレビ ()</p>

(2) 2 ことばを確認して、もういちど聞きましょう。

शब्दों को देखें और संवादों को फिर से सुनें।

みんな ^{सबके साथ} | ^{つか}使ってください ^{कृपया इसका उपयोग करें।} (^{つか}使 ^{उपयोग करना})



かたち ちゅうもく
形に注目

(1) 音声おんせいを聞いて、き _____ にことばかを書きましょう。🔊 07-09

रिकॉर्डिंग सुनें और खाली जगहों को भरें।

A: 電子レンジでんしは _____ ?

B: _____。

A: トースターは _____ ?

B: トースターは _____。

A: ベッドは?

B: ベッドは _____。

A: テレビは?

B: _____。


❗ あるかないかを質問しつもんしたり、答えこたたりするとき、どう言いっていましたか。 → 文法ノート③、第6課④
छात्रावास में कोई चीज़ है या नहीं इसके बारे में पूछते और जवाब देते समय स्पीकर (बोलने वाले व्यक्ति) किन अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं।

(2) 形かたちに注目ちゅうもくして、会話かいわをもういちど聞ききましょう。🔊 07-07 🔊 07-08

उपयोग की गई अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और संवादों को फिर से सुनें।

3 ^{いえ} ^へ ^や ^{なに} ^{しつもん} 家や部屋に何があるか質問しましょう。

पूछें कि घर या कमरे में क्या है।



(1) ^{かいわ} ^き 会話を聞きましょう。 07-10 07-11 07-12

संवादों को सुनें।

(2) シャドーイングしましょう。 07-10 07-11 07-12

संवादों के पीछे-पीछे बोलें।

(3) **1** ^{つか} ^{れんしゅう} のことばを使って、練習しましょう。

1 के शब्दों का उपयोग करके अभ्यास करें।

(4) ^{りょう} ^す ^{せってい} これから寮に住むという設定で、ロールプレイをしましょう。

^{じぶん} ^{つか} ^{じゆう} ^{かんが} ^{りょう} ^{たんとう} ^{ひと} ^{しつもん} 自分が使いたいものを自由に考えて、それがあかどうか、寮の担当の人に質問しましょう。

ホテルなどに泊まるという設定にしてもかまいません。

इस परिस्थिति का रोल-प्ले करें। आप एक छात्रावास में रहेंगे।

स्वतंत्र होकर उन वस्तुओं के बारे में सोचें जिन्हें आप उपयोग करना चाहेंगे और पूछें कि क्या वे वस्तु उपलब्ध हैं।

आप कोई और परिस्थिति भी आजमा सकते हैं, जैसे कि होटल या दूसरे ठिकाने में रहना।



3. ちょっとせまいです

Can-do
28


どこに住んでいるか、家はどうか質問されたとき、簡単に答えることができる。
जब आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं और आपका घर कैसा है तो आसान जवाब दे सकते हैं।

1 ことばの準備

शब्दों के लिए तैयारी

【どんな家? किस तरह का घर?】


a. 広い




b. せまい



c. 大きい



d. 小さい



e. 新しい



f. 古い



g. 静か(な)



h. うるさい



i. きれい(な)



j. きたない



(1) 絵を見ながら聞きましょう。🔊 07-13

चित्रों की ओर देखते हुए सुनें।

(2) 聞いて言いましょう。🔊 07-13

सुनें और शब्दों को दोहराएँ।

(3) 聞いて、a-j から選びましょう。🔊 07-14

सुनें और a-j में से चुनें।

2 2 かいわ 会話を聞きましょう。

संवादों को सुनें।

▶ 4人の人が、自分の住んでいる家について話しています。

चार लोग आपस में उन घरों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें वे रहते हैं।

(1) 1) どの家に住んでいますか。会話の内容に合っているほうを、ア-イから選んでみましょう。


वे किस तरह के घरों में रहते हैं? अ-ई में से चुनें।

1 07-15

ア.




イ.



2 07-16

ア.



イ.



3 07-17

ア.



イ.



4 07-18

ア.



イ.



(2) ことばを確認して、もういちど聞きましょう。🔊 07-15 ~ 🔊 07-18

शब्दों को देखें और संवादों को फिर से सुनें।

いえ 家 | ちよつと ちょっとな | ととても とても | うち うち | ちか 近く | でも लेकिन

いいですね यह अच्छा है।

どう? यह कैसा है? (「どうですか?」のカジュアルな言い方 どうですか कहने का एक आम बोलचाल का तरीका)

ふーん हम्म... (相手の話を聞いていることを示すカジュアルなあいづち आम बोलचाल के तरीके से बताता है कि स्पीकर (बोलने वाले व्यक्ति) किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहा है)

かたち ちゅうもく
形に注目

(1) 音声を聞いて、_____にことばを書きましょう。🔊 07-19

रिकॉर्डिंग सुनें और खाली जगहों को भरें।

いえ
家は_____ですか?

ちよつと _____ です。

ちよつと _____ です。でも、_____ です。

とても _____ です。

_____ です。

! どの家に住んでいるかを説明するとき、どう言っていましたか。 → 文法ノート ④


वे किस तरह के घर में रहते हैं यह बताने के लिए किन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया?

(2) 形に注目して、会話をもういちど聞きましょう。🔊 07-15 ~ 🔊 07-18

उपयोग की गई अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और संवादों को फिर से सुनें।

3 どんな家に住んでいるか、言いましょう。

आप किस तरह के घर में रहते हैं इस बारे में बात करें।



(1) 会話を聞きましょう。 07-20 07-21

संवादों को सुनें।

(2) シャドーイングしましょう。 07-20 07-21

संवादों के पीछे-पीछे बोलें।

(3) **2** のイラストを見て、練習しましょう。

2 के चित्रों का उपयोग करके अभ्यास करें।

(4) どんな家に住んでいるか、お互いに聞きましょう。

आप किस तरह के घर में रहते हैं? एक दूसरे से पूछें।



4. アパートに住んでいます

Can-do 29

どんな家に住んでいるか質問したり、質問に答えたりすることができる。

आप किस प्रकार के घर में रहते हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं और ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं।

1 会話を聞きましょう。

संवाद को सुनें।

- ▶ 前田さん、ビスルさん、アルニさんは、地域のイベントに参加しました。イベントのあと、どこに住んでいるか話しています。

माएदा-सान, विसाल-सान और अरुनी-सान एक लोकल आयोजन में गए। आयोजन के बाद, वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे कहाँ रहते हैं।



前田 ビサル アルニ

(1) 3人は、どんな種類の家に住んでいますか。a-eから選びましょう。

वे किस तरह के घर में रहते हैं? a-e में से चुनें।


a. アパート




b. マンション



c. 寮



d. シェアハウス



e. 一戸建て



① ビサルさん 07-22

② アルニさん 07-23

③ 前田さん 07-24

第7課 部屋が4つあります

(2) もういちど聞きましょう。3人が住んでいる家は、どんな家ですか。会話の内容に合っているものには○、違っているものには×を書きましょう。

संवाद को फिर से सुनें। वे किस तरह के घर में रहते हैं? अगर यह विषय से मेल खाता है तो ○ लिखें। अगर यह विषय से मेल नहीं खाता है तो × लिखें।

① ビサルさん  07-22	② アルニさん  07-23	③ 前田さん  07-24
1. 広いです () 2. 静かです ()	1. きれいです () 2. 古いです () 3. 静かです ()	1. 大きいです () 2. 新しいです ()


(3) もういちど聞きましょう。3人の家の近くには、何がありますか。ア - ウから選びましょう。

संवाद को फिर से सुनें। उनके घरों के नज़दीक क्या है? आ-उ में से चुनें।

ア. お寺

イ. 学校

ウ. 公園



① ビサルさん  07-22	② アルニさん  07-23	③ 前田さん  07-24


(4) ことばを確認して、もういちど聞きましょう。  07-22 ~  07-24

शब्द को देखें और संवाद को फिर से सुनें।

すごいですね यह तो शानदार है।

2 住んでいる家について質問しましょう。

एक दूसरे के घरों के बारे में सवाल पूछें।



(1) 会話を聞きましょう。 07-26 07-27 07-28

संवादों को सुनें।

(2) シャドーイングしましょう。 07-26 07-27 07-28

संवादों के पीछे-पीछे बोलें।

(3) 1の会話の内容で、練習しましょう。

1の会話の内容で、練習しましょう。

(4) どんな家に住んでいるか、お互いに質問したり、質問に答えたりしましょう。

आप किस तरह के घर में रहते हैं? एक दूसरे से सवाल पूछें और जवाब दें।



5. 洗濯機・エアコンのボタン

Can-do
30

エアコンのリモコンなど、家電を操作するための表示を見て、どのボタンを押せばいいかがわかる。
इलेक्ट्रिक उपकरण के बटनों को पढ़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल, और समझ सकते हैं कि कौन-सा दबाना है।

1 洗濯機^{せんたくき}の操作ボタン^{そうさき}を見てみましょう。


वॉशिंग मशीन पर मौजूद कंट्रोल बटनों को देखें।

▶ これから洗濯^{せんたく}をします。

आप वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़ों की धुलाई करने जा रहे हैं।

(1) 最初に洗濯機^{せんたくき}の電源^{でんげん}を入^いれます。どのボタン^おを押^おしますか。a-d から選^{えら}びましょう。

सबसे पहले, वॉशिंग मशीन को ऑन करें। आप कौन-सा बटन दबाएंगे? a-d में से चुनें।



(2) 次に、洗^{つぎ}い始^{あら}めます。どのボタン^おを押^おしますか。a-d から選^{えら}びましょう。

उसके बाद, धुलाई शुरू करें। आप कौन-सा बटन दबाएंगे? a-d में से चुनें।



入^い (入れる) ऑन (चालू करना) | 切^き (切る) ऑफ (बंद करना) | スタート स्टार्ट (शुरू करना) | コース मोड

2 エアコンのリモコンを^みてみましょう。

एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोलर को देखें।


▶ これから、^{へや}部屋のエアコンを使^{つか}います。

आप अपने कमरे में एयर कंडीशनर का उपयोग करने जा रहे हैं।

つぎ 次のとき、どのボタ^おんを押^おしますか。a-c から選^{えら}びましょう。

निम्न समयों में आप कौन-सा बटन दबाएँगे? a-c में से चुनें।

1. 寒^{さむ}いとき जब ठंडा हो
2. 暑^{あつ}いとき जब गर्म हो
3. ついて^といるエアコンを止^とめるとき जब आप इसे बंद करना चाहते हैं



大切なことば

れいぼう
冷房

|

だんぼう
暖房

|

じょしつ
除湿

| डीह्यूमिडिफाय करना

じどう
自動

| स्वचालित

おんど
温度

| तापमान

ていし
停止

| रोकना

ちょうかい
聴解スクリプト1. ^{だいどころ}ここは台所です

07-03

なかがわ はい
中川：どうぞ。入ってください。

ソン・タイン：はい。

なかがわ げんかん め
中川：ここは玄関です。くつを脱いでください。

ソン・タイン：はい。

なかがわ かんりにんしつ
中川：ここは管理人室です。

かんりにん
管理人：こんにちは。

ソン：お世話になります。

タイン：よろしくお願ひします。

なかがわ
中川：ここはトイレです。

タイン：はい。

なかがわ だいどころ
中川：ここは台所です。

ソン：はい。

なかがわ しょくどう はん た
中川：ここは食堂です。ご飯を食べます。

ソン：わかりました。

なかがわ ふろ
中川：ここはお風呂です。

タイン：はい。

なかがわ いっかい へ や よつ
中川：1階に部屋が4つあります。

ここはソンさんの部屋です。

ソン：あ、はい。

なかがわ かいだん かい
中川：ここに階段があります。2階にタインさんの
部屋があります。

2. 電子レンジはありますか？

①  07-07

なかがわ
中川：これ、冷蔵庫です。みんなで使ってください。

ソン：はい。

ティン：あのう、電子レンジはありますか？

なかがわ
中川：あります。ここです。

ソン：すみません。トースターはありますか？

なかがわ
中川：あ、トースターはありません。

ソン：そうですか。

ティン：炊飯器はありますか？

なかがわ
中川：はい。ここです。

ティン：わかりました。

②  07-08

なかがわ
中川：ここはソンさんの部屋です。どうぞ。

ソン：はい。すみません。ベッドは……？

なかがわ
中川：あ、ベッドはないです。ここにふとんがありますよ。

ソン：はい、わかりました。

ティン：テレビは……？

なかがわ
中川：あー、ないです。食堂にあります。

ティン：わかりました。

3. ちょっとせまいです

①  07-15

A: オートさんは、どこに住んでいますか？

B: 長浜ながはまに住んでいます。A: 家いえはどうですか？

B: ちょっとせまいです。

A: そうですか。

②  07-16

A: テアさんは、どこに住んでいますか？

B: 新町しんまちです。A: 家いえはどうですか？

B: とてもきれいです。

A: いいですね。

③  07-17A: アナさんのうちは、会社かいしゃの近くちか？

B: はい。

A: 家いえはどう？B: 静しずかです。

A: そう。

④  07-18A: ナディムさんの家いえは、南区みなみく？

B: はい。

A: 家いえはどう？B: ちょっと古ふるいです。でも、広ひろいです。

A: ふーん。

4. アパートに住んでいます

①  07-22前田：^{まえだ}ビスルさんは、どこに住んでいますか？ビスル：^{かいしゃ りょうす}会社の寮に住んでいます。アルニ：^{ひろ}広いですか？ビスル：いえ、^{ひろ}広くないです。

アルニ：そうですか。

ビスル：でも、とても^{しず}静かです。^{ちか こうえん}近くに公園があります。

アルニ：そうですか。

②  07-23前田：^{まえだ}アルニさんは？アルニ：^{わたし きたまち}私は、北町のアパートに住んでいます。

ビスル：きれいですか？

アルニ：はい、きれいです。

でも、^{ふる}ちょっと古いです。ビスル：そうですか。^{しず}静かですか？アルニ：いえ。^{ちか がっこう}近くに学校があります。あまり^{しず}静かじゃないです。^{まえだ}前田：ああ。

③  07-24アルニ：^{まえだ}前田さんは？ マンションですか？^{まえだ}前田：^{いっこだ}うちは一戸建て。

アルニ：すごいですね。

^{まえだ}前田：^{おお}でも、大きくないです。ビスル：そうですか。^{あた}新しいですか？^{まえだ}前田：^{あた}いえ、^{ふる}新しくないです。とても古いです。

ビスル：そうですか。

^{まえだ}前田：^{ちか}近くにお寺があります。^{てら}^{てら}お寺も^{ふる}とても古いです。

ビスル・アルニ：へー。

第7課 部屋が4つあります

かん
漢 じ
字 の ことば

1 よ 読んで、い み かくにん 意味を確認しましょう。

निम्नलिखित कांजी शब्दों को पढ़ें और उनका मतलब पता करें।

いえ
家

家 家 家

あたら
新しい

新しい 新しい 新しい

ひろ
広い

広い 広い 広い

ふる
古い

古い 古い 古い

2 _____ のかんじ ちゅうい 漢字に注意してよ 読みましょう。

निम्नलिखित को पढ़ें और _____ वाले कांजी पर ज़्यादा ध्यान दें।

① A: 家はどうですか?B: ちゃんと古いです。② A: 寮は新しいですか?B: いいえ。でも、広いです。

3 うえ 上の _____ のことばを、キーボードやスマートフォンでにゅうりょく 入力しましょう。

कीबोर्ड या स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए ऊपर _____ वाले शब्दों को टाइप करें।

ぶんぼう
文法ノート

①

ここは【^{ばしよ} 場所】ですここは^{げんかん} 玄関です。

यह प्रवेश द्वार है।

- इस अभिव्यक्ति का उपयोग स्थान के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इस पाठ में, इसका उपयोग घर दिखाते समय कमरों के बारे में बताने के लिए किया गया है।
- ここ (यहाँ) एक संकेतवाचक सर्वनाम है जो बताता है कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं।
- 場所を説明するときの言い方です。この課では、家の中を案内しながら、部屋の説明をするときに使っています。
- 「ここ」は、今いる場所を示す指示詞です。

【例】 ▶ ^{れい} ^{ふろ} ここはお風呂です。
उदाहरण यह बाथरूम है।

▶ ^{へや} ここはソンさんの部屋です。どうぞ。
यह सोन-सान का कमरा है। बेझझिक आ जाइए।

②

【^{ばしよ} 場所】にNがあります
 【^{ばしよ} 場所】にNが【^{かず} संख्या 数】あります

ここに^{かいだん} 階段があります。

ये सीढ़ियाँ हैं।

いっかい ^{へや} ^{よつ} 1階に部屋が4つあります。

पहले फ्लोर पर चार कमरे हैं।

- इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किसी चीज़ के होने के बारे में बताता है। इस पाठ में, उनका उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि घर में किस तरह के कमरे और सुविधाएँ हैं।
- ここに का प्रत्यय に बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। ^{かいだん} 階段が का प्रत्यय が बताता है कि वहाँ क्या है।
- यह कहने के लिए कि कोई चीज़ कितनी है, あります से पहले संख्या जोड़ें, जैसे कि 4つ あります में।
- 何があるかを説明するときの言い方です。この課では、家の中にどんな部屋や設備があるかを説明するときに使っています。
- 「ここに」の助詞「に」は、どこにあるかを示します。「階段が」の助詞「が」は、何があるかを示します。
- いくつあるか、数を言うときは、「4つあります」のように「あります」の前に置きます。

【例】 ▶ ^{れい} ^{いっかい} ^{ふろ} ^{だいどころ} ^{しょくどう} 1階に、お風呂とトイレと台所と食堂があります。
उदाहरण पहले फ्लोर पर एक बाथरूम, टॉयलेट, किचन, डाइनिंग रूम है।

▶ ^{かい} ^{へや} ^{みつ} 2階に部屋が3つあります。
दूसरे फ्लोर पर तीन कमरे हैं।

3

(Nは)

ありません

ないです

トースターはありません。

कोई टोस्टर नहीं है।

ベッドはないです。

कोई बेड नहीं है।

- ありません, あります का नकारात्मक रूप है और किसी चीज़ की अनुपस्थिति दर्शाता है। इस पाठ में, इसका उपयोग सवाल ~はありますか? का जवाब देने के लिए किया गया है। (क्या वहाँ कुछ है?)।
- ないです का मतलब ありません के समान है। यह शब्द です को ない के बाद जोड़कर बनाया जाता है, जो いる का नकारात्मक मूल रूप है।
- नकारात्मक वाक्यों में, Nがあります का प्रत्यय が अक्सर は में बदल जाता है।
- 「ありません」は「あります」の否定の形で、ないことを表します。この課では、「～はありますか?」と、あるかどうか聞かれて答えるときに使っています。
- 「ないです」は「ありません」と同じ意味です。辞書形「ある」の否定形「ない」の後ろに、「です」がついた言い方です。
- 否定文では、「Nがあります」の助詞「が」は「は」に変わることが多いです。

【例】 ▶ A : 部屋にベッドはありますか?
उदाहरण क्या कमरे में बेड है?

B : はい、あります。
हाँ, है।

A : ふとんは?
फुतोन है?

B : ふとんはありません。
नहीं, फुतोन नहीं है।

▶ A : あのう、部屋に Wi-Fi はありますか?
माफ़ कीजिएगा, क्या कमरे में वाई-फ़ाई है?

B : ないです。
जी नहीं, नहीं है।

4

ナA- です

イA- いです

家は静かです。

घर में शांति है।

ちょっとせまいです。

यह थोड़ा छोटा है।

- ये अभिव्यक्तियाँ किसी चीज़ की स्थिति या दिखावट के बारे में बात करने के लिए विशेषणों का उपयोग करती हैं। इस पाठ में, इनका उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि आप किस तरह के घर में रहते हैं।
- संज्ञा को रूपांतरित करते समय वाले रूप के आधार पर दो तरह के विशेषण होते हैं, **ナ** विशेषण और **イ** विशेषण। संज्ञा को रूपांतरित करते समय, **~な** से अंत होने वाले विशेषणों को **ナ** विशेषण कहा जाता है, और **~い** से अंत होने वाले विशेषणों को **イ** विशेषण कहा जाता है (→ पाठ 14 ㉓)।
- **ナ** विशेषणों के साथ वाक्य बनाते समय, **ナ** विशेषणों के **~な** अंत को हटा दें और **です** जोड़ दें। **イ** विशेषणों के साथ, **~い** अंत के बाद **です** जोड़ दें। उदाहरण में, **静か** (な) (शांत) एक **ナ** विशेषण है और **せまい** (छोटा) एक **イ** विशेषण है।
- सावधान रहें: **きれい** (साफ) **イ** विशेषण नहीं है। यह एक **ナ** विशेषण है। इसका उच्चारण **kiree** की तरह होता है, **kirei** की तरह नहीं।
- 形容詞を使って、状態や様子を述べるときの言い方です。この課では、どんな家に住んでいるか説明するときに使っています。
- 形容詞は、名詞を修飾するときの形の違いから、**ナ**形容詞と**イ**形容詞の2種類に分けられます。名詞を修飾するとき語尾が「~な」になるものを**ナ**形容詞、「~い」になるものを**イ**形容詞といいます (→第14課 ㉓)。
- 形容詞を使って文を作るとき、**ナ**形容詞の場合、語尾の「~な」をとって「です」をつけます。**イ**形容詞の場合、「~い」のあとに「です」をつけます。例文の「静か(な)」は**ナ**形容詞、「せまい」は**イ**形容詞です。
- 「きれい」は**イ**形容詞ではなく**ナ**形容詞なので注意しましょう。発音も **kirei** ではなく、**kiree** と発音します。

[例] ▶ A : 家はどうですか?
れい い
う え
 उदाहरण यह घर कैसा है?

B : ちよつと古いです。
ふる
 थोड़ा पुराना है।

A : そうですか。
あ
 अच्छा।

B : ども、とてもきれいです。
れ
 लेकिन, बहुत साफ है।

5

ナ A- じゃないです
イ A- くないです

アパートは、あまり静かじゃないです。
しず

मेरा अपार्टमेंट बहुत शांत नहीं है।

寮は広くくないです。
り ひ
り ろ

डॉरमेट्री बहुत बड़ी नहीं है।

- ये शब्द विशेषण वाले वाक्य के नकारात्मक रूप का उपयोग करते हैं। इस पाठ में, इनका उपयोग आपके घर के सवालियों के जवाब नकारात्मक रूप से देने के लिए किया जाता है।
- नकारात्मक वाक्य बनाते समय, **~です** को **ナ** विशेषण के साथ **~じゃないです** में बदलें, या **~い** को **イ**-विशेषण के साथ **~くない** में बदलें।
- **ない** की बजाय, आप **ナ A- じゃありません** या **イ A- ありません** कहने के लिए **ありません** का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 形容詞文の否定の言い方です。この課では、住まいについての質問に否定の答えを返すときに使っています。
- 否定文にするには、**ナ**形容詞の場合、「~です」を「~じゃないです」に変えます。**イ**形容詞の場合、「~いです」を「~くないです」に変えます。
- 「ないです」の代わりに「ありません」を使った「**ナ A- じゃありません**」「**イ A- ありません**」という言い方もあります。

れい
[例] ▶ A : 部屋は広いですか?
उदाहरण क्या कमरे बड़े हैं?

B : はい、ひろ 広いです。でも、きれいじゃないです。
हाँ, वे बड़े हैं। लेकिन, वे बहुत अच्छे नहीं हैं।

▶ A : かいしゃ 会社は大きいですか?
क्या कंपनी बड़ी है?

B : いえ、おお あまり大きくないです。
नहीं, बहुत बड़ी नहीं है।

日本の生活
TIPS● にほん いえ
日本の家 日本家 日本家

इन दिनों, पारंपरिक जापानी शैली में कम ही घर बनते हैं। हालाँकि, आज भी, अधिकतर जापानी घर लकड़ी से बने होते हैं। घर का खाका 2LDK जैसे फॉर्मेट्स में दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि घर में दो बेडरूम, एक लिविंग रूम, और एक डाइनिंग रूम/किचन है।

आगे जापानी घरों की कुछ आम विशेषताएँ बताई गई हैं।

最近では、日本式の伝統的な造りの家は少なくなりました。ただし、今でも日本の家は、木造の場合がほとんどです。家の間取りは、「2LDK」のようなことばで表します。この場合、2つの部屋、リビングルーム、ダイニング・キッチンがあることを示しています。

日本の家には、以下のような特徴もあります。

▶ げんかん
玄関 प्रवेश हॉल

प्रवेश हॉल में एक सीढ़ी होती है जो घर में जाती है। सीढ़ी घर के अंदर के हिस्से को बाहर के हिस्से से अलग करती है। जापान में, घर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे। अपने जूते उतारें, और फिर घर में अंदर जाएँ।

玄関には段差があり、家の中は一段高くなっています。ここで、家の外と中が分けられています。日本では家に入るとき、必ず靴を脱ぎます。靴を脱いで、段を上がって家に入ります。

▶ わしつ
和室 वाशित्सु (जापानी शैली वाले कमरे)

वाशित्सु एक पारंपरिक जापानी कमरा है। फर्श तातामी मैट्स (पारंपरिक जापानी फर्श जो खली या चावल के भूसे से बनते हैं) से बना होता है। कुछ वाशित्सु में तोको नो मा (एल्कोव) नामक जगह होती है। स्टोरेज की जगह को ओशिरे (अलमारी) कहा जाता है। ओशिरे में बेडिंग और अन्य आइटम रखे जाते हैं। ओशिरे में एक फुसुमा (कागज़ से बना एक स्लाइडिंग डोर) होता है जिसे खोला और बंद किया जाता है। कभी-कभी, वाशित्सु कमरे फुसुमा द्वारा विभाजित किए गए होते हैं। वाशित्सु की खिड़कियों में आम तौर पर पर्दे के बजाय शोजी (कागज़ का स्क्रीन) होता है। ये लकड़ी से बने फ्रेम होते हैं जो कागज़ से ढके होते हैं। इन दिनों, कम ही घरों में वाशित्सु कमरे होते हैं।

日本の伝統的なスタイルの部屋を、「和室」といいます。和室には畳が敷かれています。「床の間」がある和室もあります。和室の収納スペースは「押し入れ」といって、ふとんなどを入れます。押し入れは「ふすま」という、紙でできた引き戸を開け閉めします。ふすまは和室と和室を仕切るのにも使われます。和室の窓には、カーテンではなく、木枠に紙を貼った「障子」を使うことが多いです。最近では、和室のある家は少なくなってきました。

▶ トイレ शौचालय

शौचालय आमतौर पर शॉवर / बाथ से अलग कमरे में होता है। अब जापानी स्टाइल वाले शौचालय बहुत कम ही होते हैं। अधिकतर वेस्टर्न स्टाइल वाले होते हैं। अब अधिकतर शौचालय में गर्म पानी वाले इलेक्ट्रिकल बिडेट्स भी होते हैं। शौचालय में प्रवेश करते समय, लोग सामान्य तौर पर शौचालय स्लीपर्स पहन लेते हैं।

トイレは、風呂場とは別になっていることが普通です。和式のトイレは今では少なくなり、洋式トイレが一般的です。温水洗浄便座がついていることも増えました。トイレに入るときは、トイレ専用のスリッパを履くことが多いです。



風呂 入浴

जापानी घरों में आम तौर पर बाथटब होते हैं। हालाँकि, आपको खुद को बाथटब में धोने की ज़रूरत नहीं है। बाथटब में घुसने से पहले, आप अपने बाल और शरीर को टब से बाहर धोते हैं। धुल जाने के बाद, आप बाथटब में जाकर खुद को गर्म करते हैं और आराम करते हैं।

日本の家の風呂場には、たいていバスタブがあります。バスタブの中で体を洗うことはなく、風呂に入る前に、バスタブの外で頭と体を洗います。体を洗ってから、暖まるため、リラックスするために、バスタブのお湯にゆっくり浸かります。



ふとん 布団



जापानी लोग इन दिनों आम तौर पर बेड पर सोते हैं। हालाँकि, *वाशित्सु* में सोने के दौरान, वे फर्श पर रखे गए *फुतोन* पर सोते हैं। यह भी संभव है कि बेड का एक लकड़ी वाला फ्रेम खरीद कर उस पर *फुतोन* रखा गया हो। *फुतोन* का उपयोग अभी भी बड़े पैमाने पर होता है।

फुतोन दो भागों से बना होता है। एक है शिकी-बुतोन, जोकि गद्दा होता है जिस पर आप लेटते हैं। दूसरा है काके-बुतोन, जोकि कंबल होता है जिससे आप खुद को ढकते हैं। कुछ लोग शिकी-बुतोन के नीचे पतला गद्दा रखते हैं। इस तरह से आप *फुतोन* तैयार करते हैं।

現在では日本人もベッドで寝ることが一般的になりましたが、和室で寝るときなどには、ふとんを敷いて寝ます。また、ベッド型の木枠の上にもふとんを敷いて寝るタイプのベッドも売られていて、今でもふとんは広く使われています。

ふとんのうち、下に敷いて寝るほうのふとんを「敷きふとん」、上にかけるほうのふとんを「掛けふとん」といいます。敷きふとんの下には、薄手のマットレスを敷くこともあります。ふとんは、次のように敷きます。



1.



गद्दा बिछाएँ।
मैट्रेसを敷きます。

2.



गद्दे के ऊपर शिकी-बुतोन रखें।
मैट्रेसの上に、敷きふとん
を敷きます。

3.



शिकी-बुतोन को एक चादर से
ढकें।
敷き布団の上に、シーツを掛
けます。

4.



एक तकिया लगाएँ और काके-
बुतोन रखें।
枕と掛けふとんをセットします。

अगर आप *फुतोन* पर सोते हैं, तो इसे हरेक दिन हटा दें। अगर आप इसे छोड़ देते हैं, तो इसमें नमी हो सकती है, फफूंदी लग सकती है या खटमल इत्यादि हो सकते हैं। *फुतोन* को नियमित रूप से सूखने के लिए बाहर रखें। आप इसे सुखाने के लिए *फुतोन ड्रायर* का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह उपयोग करने में ज़्यादा आरामदेह हो जाएगा।

部屋にふとんを敷いて寝る場合、毎日ふとんを上げましょう。もしふとんを敷きっぱなしにすると、水分がたまり、カビが生えたり、ダニが発生したりします。また、ふとんは定期的に干したり、「ふとん乾燥機」を使って乾かしたりすると、快適です。

にほん じゅうたく しゅるい

● 日本の住宅の種類 日本人的な住宅の種類

日本人的な住宅の種類は、いくつかの種類があります。

日本人的な住宅の種類は、いくつかの種類があります。

▶ マンション 集合住宅 (コンドミニウム)

日本語の「マンション」は、鉄筋コンクリートで造られた、比較的大きめの集合住宅です。部屋を買って住む場合と、家賃を払って借りて住む場合があります。近年、特に都市部では、マンションが多く建てられています。土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションを「タワーマンション (タワマン)」ということもあります。



日本語の「マンション」は、鉄筋コンクリートで造られた、比較的大きめの集合住宅です。部屋を買って住む場合と、家賃を払って借りて住む場合があります。近年、特に都市部では、マンションが多く建てられています。土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションを「タワーマンション (タワマン)」ということもあります。

▶ アパート 個別住宅 (アパルトメント)



アパートは、マンションほど大きくなく、たいてい2階建てから3階建てぐらいで、エレベーターはなく、部屋数も少ない建物を言います。木造のことも多いです。借りて住むのが一般的で、マンションと比べると、家賃が安い印象があります。ただし、法的にはマンションとアパートには明確な区別はありません。

アパートは、マンションほど大きくなく、たいてい2階建てから3階建てぐらいで、エレベーターはなく、部屋数も少ない建物を言います。木造のことも多いです。借りて住むのが一般的で、マンションと比べると、家賃が安い印象があります。ただし、法的にはマンションとアパートには明確な区別はありません。

▶ 一戸建て 個別住宅

多くの人々は、特に都市部では、マンションやアパートよりも一戸建ての住宅を好みます。一戸建ては、土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションを「タワーマンション (タワマン)」ということもあります。

多くの人々は、特に都市部では、マンションやアパートよりも一戸建ての住宅を好みます。一戸建ては、土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションを「タワーマンション (タワマン)」ということもあります。



▶ シェアハウス サझा घर



साझा घर कई लोगों के एक साथ रहने और मिलकर किराया देने के लिए बने होते हैं। उनमें निजी कमरे और साझा जगहें होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी कमरा होता है लेकिन वे किचन, शावर और विश्राम कक्ष जैसी अन्य जगहों को साझा करते हैं। साझा घर विद्यार्थी और विदेशी लोगों में लोकप्रिय हैं क्योंकि वे अपने साथ रहने वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

一軒の家を複数の人で借りて住むスタイルの賃貸住宅で、個室と共用スペースがあります。部屋は自分の個室がありますが、キッチンやシャワー、ラウンジなどは入居者が共同で利用します。ほかの人との交流もできることから、学生や外国人に人気があります。

▶ 寮 डॉरमेटी

कंपनी डॉरमेटीज़ होती हैं और छात्र डॉरमेटीज़। ये हाउसिंग कॉम्पलेक्स, कंपनी कर्मचारियों या छात्रों के लिए होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी कमरा होता है। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति शौचालय, किचन और बाथरूम जैसी जगहों को साझा करता है। कुछ डॉरमेटीज़ बिना निजी कमरे वाली भी होती हैं। उसके बजाय, प्रत्येक व्यक्ति को एक बेड दिया जाता है। कुछ डॉरमेटीज़ हर दिन कैफ़ेटेरिया में भोजन भी देती हैं। किराया आमतौर पर सस्ता होता है।


会社の社員のため、または学生のための集合住宅で、「社員寮」「学生寮」などがあります。自分の個室があり、トイレ、キッチン、風呂などは共同で利用します。個室がなく、ベッドのみが割り当てられる寮もあります。食事付きで、毎日の食事が食堂で提供される場合もあります。家賃は非常に安いことが一般的です。



● 日本にほんの住所じゅうしょのシステム にほん 日本 में पते की प्रणाली

जापान में पते में बुनियादी तौर पर सबसे पहले पते की सबसे बड़ी इकाई को, फिर उससे छोटी, और फिर उससे भी छोटी लिखी जाती हैं। पता सामान्य रूप से नीचे बताए गए तरीके से लिखा जाएगा।

日本の住所は基本的に、大→小の順で表します。おおまかな住所の表示は、以下ようになります。



पता अगर टोक्यो के 23 वार्ड, अध्यादेश-नामित शहर, नियमित शहर या कस्बा और गाँव का हो उसे अलग-अलग तरह से लिखा जाएगा। नीचे उदाहरण देखें।
住所の表し方は、住んでいる地域が、東京 23 区か、政令指定都市か、普通の市か、町や村かで、次のように少し異なります。

पत्तों के उदाहरण
住所の表示の例

	शहर 市	टोक्यो के 23 वार्ड 東京 23 区	अध्यादेश-नामित शहर 政令指定都市	कस्बा/गाँव 町・村
① डाक कोड 郵便番号	270-2213	114-0032	330-0074	907-1751
② प्रीफेक्चर/प्रांत 都道府県	ちばけん 千葉県	とうきょうと 東京都	さいたまけん 埼玉県	おきなわけん 沖縄県
③ काउंटी/जिला 郡				やえやまくん 八重山郡
④ शहर/कस्बा/गाँव 市町村	まつどし 松戸市		さいたまし さいたま市	たけとみちよう 竹富町
⑤ वार्ड 区		きたく 北区	うらわく 浦和区	
⑤ क्षेत्र का नाम 地域名	ごこう 五香	なかじゅうじょう 中十条	きたうらわ 北浦和	あざはてるま 字波照間
⑦ ब्लॉक अंक 丁目	7	2	5	
⑧ लॉट अंक 番地	11	17	6	2750
⑨ इमारत अंक 号	3	1	36	1

② से ⑨ बड़े से छोटे के क्रम में है।
②→⑨は、大→小の順です。

- ① डाक कोड सात अंकों वाली संख्या होती है। पहले आधे हिस्से में तीन अंक होते हैं। दूसरे आधे हिस्से में चार अंक होते हैं। यह पते का पहला भाग है।
郵便番号は、3桁+4桁の計7桁の数字です。住所のいちばんはじめに書きます。
- ② जापान 47 都道府県(प्रीफेक्चर्स/प्रांतों) में विभाजित है। मेट्रोपोलिटन टोक्यो एकमात्र 都(मेट्रोपोलिस) है, और होक्काइदो एकमात्र 道(सर्किट) है। ओसाका और क्योटो 府(शहरी प्रीफेक्चर्स) हैं। शेष 43 県(प्रीफेक्चर्स) हैं।
日本の行政区分は47の都道府県に分かれます。「都」は東京都だけ、「道」は北海道だけです。「府」は大阪府と京都府があります。あとの43はすべて「県」です。
- ③④ प्रीफेक्चर/प्रांत के बाद, 市(शहर), 町(कस्बा), 村(गाँव) आता है। हालाँकि, टोक्यो के 23 वार्डों के शहर वाले नाम नहीं हैं। 町 और 村, 郡(काउंटी/जिला) के बाद आते हैं।
都道府県のあとは、「市」「町」「村」のどれかになります。ただし、東京23区は市の名前はありません。「町」「村」の場合は、その前に「郡」を言ってから続けます。
- ⑤ टोक्यो के 23 वार्ड और अध्यादेश-नामित शहर 区(वार्ड) में विभाजित हैं। शहरों में(वार्ड) नहीं होते हैं, बशर्ते वे अध्यादेश-नामित शहर न हों।
東京23区、および政令指定都市は、「区」に分けられます。政令指定都市ではない一般の市では、「区」はありません。
- ⑥ इलाके का नाम शहर, कस्बा या गाँव के नाम के बाद आता है।
市町村名のあとに、その地域の名前が来ます。

⑦⑧⑨ इलाके आमतौर पर ब्लॉक्स में बंटे होते हैं और ब्लॉक्स लॉट्स में बंटे होते हैं। इलाके के नाम के बाद आने वाला नंबर 丁目 (ब्लॉक अंक) होता है, जिसके बाद 番地 (लॉट अंक) आता है, और फिर 号 (इमारत अंक) आता है जो इमारत का स्थान बताता है। ये अंक हाइफन के द्वारा अलग-अलग किए गए होते हैं। ये “-” की तरह लिखे जाते हैं लेकिन बोलते समय नो पढ़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, 5-6-36 को गो-नो-रोकु-नो-सांजुरोकु की तरह पढ़ा जाएगा। हालाँकि, शहर, कस्बा या गाँव नाम के बाद का पता का हिस्सा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लिखा जाता है।

そのあとの数字は、一般的には大まかなブロックを表す「丁目」、細かいブロックを表す「番地」、建物の位置を示す「号」の順番で数字を並べます。この3つの数字は、書くときはハイフン「-」でつなぎ、「の」と読みます。例えば5-6-36は「ごのろくのさんじゅうろく」と読みます。ただし、市町村名以降の住所表示は、地域によって異なる場合もあります。

सिवाय प्रमुख सड़कों और शॉपिंग स्ट्रीट्स के, जापानी सड़कों के नाम नहीं होते हैं। इसलिए जापानी पते के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सड़क नाम के बजाय क्षेत्र का नाम लिखा जाए। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में 号 के अंक क्रम में नहीं होते हैं। इससे इमारत को खोजना मुश्किल हो सकता है।

日本の道路は、主要な幹線道路や商店街等をのぞき、名前がつけられていません。そのため、日本の住所は道路名ではなくエリア名で表されるということが、大切な点です。また、地域によっては号の数字が整理されていないこともあり、建物を特定するのが難しい場合もあります。